

किराना दुकान में बिक रही नकली शराब

Publish Date: Thu, 06 May 2021 04:59 PM (IST) Author: Jagran

जागरण संवाददाता पाकुड़ मिनी लॉकडाउन का सबसे अधिक फायदा तथाकथित शराब कारोबारी उठा

जागरण संवाददाता, पाकुड़ : मिनी लॉकडाउन का सबसे अधिक फायदा तथाकथित शराब कारोबारी उठा रहे हैं। इस दौरान दोपहर दो बजे के बाद तमाम दुकानें बंद हो जाती हैं। शराब दुकान भी दोपहर दो बजे से बंद हो जाती है। शाम ढलने के बाद शौकीन शराब की खोज में निकल पड़ते हैं। शहर के कालीतल्ला स्थित एक किराना दुकान में खुलेआम शराब की बिक्री हो रही है। उत्पाद विभाग और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। शाम ढलते ही किराना दुकान के इर्द-गिर्द लोग मंडराने लगते हैं। पूरे शहर में यह चर्चा का विषय बना हुआ है। सबसे अहम बात यह है कि किराना दुकानदार नकली शराब भी बेच रहा है। दुकानदार जान-पहचान के लोगों को असली शराब देता है। अधिकतर लोगों को नकली शराब उपलब्ध कराया जाता है। नकली शराब की कीमत भी असली शराब की कीमत से अधिक लेते हैं। दुकानदार शराब को घर के पीछे छिपा कर रखते हैं। उसके पास आइबी, ओसी, आरएस ब्रांड के नकली शराब उपलब्ध है। 180 एमएल शराब की कीमत 15 से 20 रुपये अधिक चुकाने पड़ते हैं। नकली बियर भी बेचा जा रहा है।

सूत्रों के अनुसार कोटालपोखर का एक युवक अपने घर में नकली शराब बनाने का काम करता है। वह युवक प्रतिदिन राशन दुकानदार को चार-पांच पेट्टी नकली शराब पहुंचाता है। मुहल्ले के लोगों ने भी इसकी शिकायत की है। उत्पाद विभाग के अवर निरीक्षक सत्येंद्र कुमार ने बताया कि जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

अवैध तरीके से शराब बेचना गुनाह है। अगर ऐसा हो रहा है तो दुकान में छापेमारी की जाएगी। अवैध कारोबारी को बखशा नहीं जाएगा।

गोपाल कृष्ण यादव, पुलिस निरीक्षक, पाकुड़

Source: <https://www.jagran.com/jharkhand/pakur-fake-liquor-sold-in-grocery-store-21620252.html>